

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय कोंडागाँव,
[शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार]
बंधापारा, कनेरा रोड,
कोंडागाँव (छ.ग.) 494226
फोन नं० 07786296025
ई-मेल:- kondagaonkv@gmail.com
वेबसाईट:- kondagaon.kvs.ac.in



PM SHRI Kendriya Vidyalaya Kondagaon,
[Ministry of Education, Government of India]
Bandhapara, Kanera road,
Kondagaon (C.G.) 494226
Phone No. 07786296025
E-mail: - kondagaonkv@gmail.com
Website: - kondagaon.kvs.ac.in

प्रवेश सूचना 2026-27

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय कोंडागाँव में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 11वीं में सिमित रिक्त स्थानों में प्रवेश हेतु इच्छुक आभ्यर्थियों के आवेदन (ऑफलाइन) दिनांक **27.04.2026** से **02.05.2026** तक आमंत्रित किये जा रहे हैं। पंजीयन हेतु आवेदन पत्र (विषय विकल्प प्रपत्र एवं रजिस्ट्रेशन फॉर्म) विद्यालय में प्रातः 8:00 से दोपहर 02:00 बजे तक कार्यालयीन दिवसों से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं या विद्यालय वेबसाइट <https://kondagaon.kvs.ac.in/en/admission-details/> से डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित अंतिम तिथि **02.05.2026**, दोपहर 2:00 बजे तक विद्यालय में जमा करायें।

नोट: केवल CBSE बोर्ड के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें।

कक्षा – 11 में प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

1. विषय विकल्प प्रपत्र (Stream Option Form)
2. प्रवेश पंजीकरण प्रपत्र (Registration Form)
3. पासपोर्ट साइज फोटो – 2
4. जन्म प्रमाण पत्र
5. आधार कार्ड
6. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC)
7. सेवा प्रमाण पत्र
8. माता-पिता की वेतन पर्ची
9. रक्त जांच रिपोर्ट (मूल)
10. स्थानीय पता प्रमाण पत्र
11. जाति प्रमाण पत्र
12. आय प्रमाण पत्र (OBC-नॉन क्रीमी लेयर)
13. UDISE PEN नंबर
14. अपार आइडी

नोट : उपरोक्त सूचीबद्ध सभी दस्तावेज (यथानुसार) रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ जमा करें। जब आप प्रवेश के लिए विद्यालय कार्यालय में उपस्थित होंगे, तो इन दस्तावेजों को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्राचार्य
पीएम श्री के. वि. कोंडागाँव



केन्द्रीय विद्यालय संगठन/KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय कोंडागाँव, रायपुर संभाग PM SHRI KENDRIYA VIDYALAY KONDAGAON, RAIPUR REGION



OPTION FORM FOR KV STUDENTS FOR ADMISSION TO CLASS XI (2026-27)

Reg No _____ Date of Reg. _____

STREAM CHOICE:

(1) Science(Maths)

(2) Science(Biology)

Paste your

Latest

Photograph

- Name of applicant: _____
- School last Attended: _____
- (a) Father's Name: _____ Mother's Name _____
(b) Occupation: _____ Occupation: _____
(c) Basic Pay: _____ Basic Pay: _____
(d) Service Category of Parent as per KVS Admission guidelines: _____
- Residential Address: _____
- Phone/Mobile No _____ Email id _____
- Category of Applicant (Specify Gen./ SC/ST/OBC(NCL)): _____
(if SC/ST/OBC(NCL), attach self-attested photocopy of certificates)
- Result of class X (supported by photocopy of marksheet) CBSE Roll No. _____

Subject	Marks	Subject	Marks
Hindi		Mathematics Standard	
Sanskrit		Mathematics Basic	
English		Science	
Social Science		Total Marks with %	/500 %

8. Aggregate Marks in Science & Math _____

9. Subject Opted Core Subject (1) English

Elective Subject (2) _____ (3) _____

(4) _____ (5) _____

Additional Subject: Physical Activity Trainer(845)

10. Whether participated in SGFI/KVSNational/RegionalSportsMeet/Scout/Guide/NCC (if yes, please attach attested photo copies of certificate and give details). Specify the level also _____

(All taken together Aggregate Marks will not be exceeded by 6%)

We hereby declare that the above information furnished is true to the best of our knowledge.

Date

Signature of Student

Parent's Signature



केन्द्रीय विद्यालय

सम्भाग

Kendriya Vidyalaya

Region

शैक्षिक सत्र/ Academic Session : 2026-27

प्रवेश पंजीकरण-प्रपत्र/ REGISTRATION FORM

Class:

Registration No. :

Paste Latest
Passport Size
Photograph of
the Child

- विद्यार्थी का पूरा नाम (स्पष्ट शब्दों में) :
Name of the Child (In Capital Letters) :
- लिंग/Gender : पुरुष/Male () स्त्री/Female () तृतीय लिंग/Third Gender ()
- जन्म-तिथि / Date of Birth :
(अंकों में/In figures) : दिन/Day मास/Month वर्ष/Year
(शब्दों में/In words) :
- 31.03.2026 तक आयु/Age as on 31.03.2026: वर्ष/Year मास/Month दिन/Day
(01.04.2026 को भी स्वीकार किया जाएगा/ 01.04.2026 will also be considered)
- बच्चे का रक्त समूह (आर एच फैक्टर सहित)/Blood Group of the Child (With RH Factor):
- बच्चे की संबंधित श्रेणी :
Category of the Child :

Gen	SC	ST	OBC-CL	OBC-NCL	EWS	BPL	CwSN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- यूडाइज़ पैन (स्थायी शिक्षा संख्या)/UDISE PEN (Permanent Education Number), (if available):.....
- अपार आईडी (उपलब्ध होने पर)/ APAAR ID (if available):.....
- आधार नंबर (उपलब्ध होने पर)/Aadhar Number (If available):

10. माता-पिता का विवरण/ Details of Mother & Father:

क्र. सं. S.N.	विवरण/Particulars	माता/Mother	पिता/Father
i.	नाम (स्पष्ट शब्दों में) Name in CAPITAL Letters	: :	: :
ii.	राष्ट्रीयता/ Nationality	: :	: :
iii.	व्यवसाय /Occupation	: :	: :
iv.	कार्यालय का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष Name of Office, Full Address & Telephone Number	: :	: :
v.	पूर्ण आवासीय पता एवं दूरभाष Full Address & Telephone No.	: :	: :
vi.	विद्यालय से दूरी (कि.मी. में) Distance from the Vidyalaya (In K.M.)	: :	: :
vii.	वार्षिक आय /Annual Income	: :	: :
viii.	पिछले सात वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या No. of Transfers during last 07 years (As on 31.03.2026)	: :	: :
ix.	माता-पिता की सेवा श्रेणी (केविस के प्रवेश दिशा- निर्देशिका 2026-27 के अनुसार) Service Category of the Parent (As per KVS Admission Guidelines 2026-27)	: :	: :
x.	कर्मचारी कोड (यदि है तो)/Emp. Code (If any)	: :	: :
xi.	ई-मेल आई डी /e-Mail ID	: :	: :

अभिभावक के हस्ताक्षर/Sign. of Guardian

दिनांक/Date:

पृष्ठ संख्या/Page 1 of 4

स्थानांतरण संख्या प्रमाण-पत्र/ CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS

मैं,(नाम)(पदनाम).....(कार्यालय),
एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि पिछले सात वर्षों में (31.03.2026 तक) में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे
.....(अंकों व शब्दों में) स्थानांतरण हुए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

I,.....(Name).....(Designation).....
(Office), do hereby certify that during the past 07 years (Up to 31.03.2026), I have been transferred..... times (in figures, and in words) from one station to another, the details of which are as under:

क्र. सं. S.N.	कार्यालय/यूनिट Office/Unit	स्थान Place	रैंक/पदनाम Rank/Designation	दिनांक/Date Period of Stay		ठहरने की अवधि Period of Stay	स्थानान्तरण आदेश संख्या Transfer Order No.
				से/From	तक/To		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

(टिप्पणी/Note: स्थानांतरण की गणना हेतु एक स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम छः मास होनी चाहिए। Period of posting/ stay at a place must be at least six months for the purpose of transfer-count.)

अभिभावक/संरक्षक द्वारा उद्धोषणा /Undertaking by the Parent/Guardian

मैं जानता/जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य किसी भी स्तर पर (प्रवेश के समय अथवा बाद में) गलत पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। इस संबंध में मेरे द्वारा किसी प्राधिकारी से कोई अपील नहीं की जाएगी।

I know that if the above-mentioned facts are found incorrect at any stage (at the time of admission or later), my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya. No appeal will be made by me to any Authority in this regard.

माता-पिता के हस्ताक्षर
Signature of Parent

प्रति-हस्ताक्षर/Countersigned

मैं,(नाम)(पदनाम).....(कार्यालय),
एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण को कार्यालय-आलेखों से जाँच लिया गया है, व सही पाया गया है।

I,.....(Name).....(Designation).....
(Office), do hereby certify that the particulars given in above, have been authenticated by the records held in the office and found correct.

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)

Signature of Head of the Office

स्थान/Place.....

दिनांक/Date.....

(With Name, Designation & Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या/Complete Address and telephone number of the office:.....

सेवा प्रमाण-पत्र/ SERVICE CERTIFICATE
(केन्द्र सरकार/Central Government)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पद.....
.....कार्यालय/मंत्रालय में कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। वे रक्षा सेवा/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/एस एस बी/असम रायफल्स/आई टी बी पी/सीमा सुरक्षा बल एन एस जी/एस पी जी/एस पी जी सी आई एस एफ/डी आर डी ओ/अखिल भारतीय सेवा/केन्द्र सरकार स्वायत्त संस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो कि पूर्ण या आंशिक रूप से (.....% सरकारी अंश का प्रतिशत) केन्द्र सरकार से वित्त-पोषित है, के नियमित कर्मचारी हैं तथा उनकी सेवाएँ अस्थानांतरणीय/पूर्ण भारत में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt.....Designation.....
is working in the office/ Ministry of..... He/She is a regular employee of Defence Service/ITBP/ CRPF/ BSF/ NSG/ SPG/ CISF/ SSB/ Assam Rifles/ DRDO/ Central Government/AIS/Autonomous Body/ Public Sector Undertaking fully financed/ partially financed (.....% percentage of Govt. share) by Central Government and his/ her services are non-transferable/ transferable anywhere in India.

स्थान/Place.....
दिनांक/Date.....

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of Head of the Office
(With Name, Designation & Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या:
Complete Address and telephone number of the office:

सेवा प्रमाण-पत्र/ SERVICE CERTIFICATE
(राज्य सरकार/State Government)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पद.....
.....कार्यालय/मंत्रालय/राज्य सरकार स्वायत्त संस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो कि पूर्ण या आंशिक रूप से (.....% अंश का प्रतिशत) राज्य सरकार से वित्त-पोषित है, के नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं तथा उनकी सेवाएँ अस्थानांतरणीय/पूर्ण राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt.....Designation.....
is working as a regular employee in the office/ Ministry of..... /Autonomous Body/PSU fully financed/partially financed (.....% percentage of Govt. share) by the State Government and his/ her services are non-transferable/ transferable anywhere in the State.

स्थान/Place.....
दिनांक/Date.....

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of Head of the Office
(With Name, Designation & Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या/ Complete Address and telephone number of the office:

सेवा-कालीन मृत्यु प्रमाण-पत्र/DIED IN HARNESS CERTIFICATE

(केवल केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए/Only for Central Government Employees)

प्रमाणित किया जाता है कि कुमार/कुमारीस्वर्गीय श्री/श्रीमती
.....के पुत्र/पुत्री हैं जो
(कार्यालय/विभाग) में सेवारत थे/थीं और उनका देहावसान सेवाकाल की अवधि में दिनांकको हो गया था।

Certified that Master/Miss..... is the son/ daughter of
Late Shri/Smt..... who was a regular employee of
.....(Office/Department) and he/she died in harness
(while in service) on(date).

स्थान/Place.....

दिनांक/Date.....

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)

Signature of Head of the Office

(With Name, Designation & Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या:

Complete Address and telephone number of the office:

.....



प्रवेश पंजीकरण पावती/Receipt of Registration for Admission

केन्द्रीय विद्यालय/Kendriya Vidyalaya.....

पंजीकरण संख्या/Registration No.....

शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए (बच्चे का नाम)....., कक्षा में प्रवेश हेतु पंजीकरण-प्रपत्र

दिनांक..... को अभिभावक/संरक्षक (नाम)से प्राप्त हुआ।

नोट: इस प्रपत्र का जमा होना प्रवेश की गारंटी नहीं देता है।

For the academic session 2026-27, the Registration Form for admission of
(Child's Name)to Class was received on
(Date).....from the parent/guardian [Name].....

Note: Submission of this form does not guarantee admission.

हस्ताक्षर एवं मोहर
(प्राचार्य / Principal)

दिनांक/Date:

पृष्ठ संख्या/Page 4 of 4